

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 1982/फाल्गुन 10, 1903
No. 42] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 1982/PHALGUNA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० 9-ई० टी० सी० (पी० एन०)/82

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1982

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय:—प्रोटीन विद्युत और खाद्य मूंगफली आटे का निर्यात ।

मिसिल सं० 38/6/82-ई०-2—उपरोक्त विषय पर निर्यात नियंत्रण संशोधन आदेश
सं० ई० (सी०) ओ०, 1977/ए० एम० (234) दिनांक 1 मार्च, 1982 को और ध्यान दिलाया
जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि प्रोटीन विद्युत और खाद्य मूंगफली आटे के निर्यात
की अनुमति, उच्चतम सीमित सीमा के भीतर, पहले आए सो पहले पाए के आधार पर और

क्रमशः 25,000/- रु० और 6,000/- रु० प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य के आधार पर दी जाए। लाइसेंस प्रदान करने के लिए, सम्पूर्ण उच्चतम सीमा से अधिक गुण निर्धारक, आयात-निर्यात, बम्बई के निपटान पर रखी गई है।

3. तदनुसार निर्यात नीति पुस्तिका 1981-82 के पृष्ठ 15 पर के नीति विवरण में नीचे संकेतित सरंके से निम्नलिखित उप-प्रतिष्ठानों को जारी चाहिए :—

क्रम सं० जैसे कि भाग 'अ' की अनुसूची में दी गई है	सब का उद्योग	लाइसेंस नीति
40(3)	प्रोटीन विद्युत	निर्यात की अनुमति प्रतिटन 25,000 रु० न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन, पहले आए से पहले पाए के आधार पर उच्चतम सीमित सीमा के भीतर अनुमेय है।
40(4)	खाद्य संयुक्तों का आटा	निर्यात की अनुमति प्रतिटन 6,000 रु० न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन, पहले आए से पहले पाए के आधार पर उच्चतम सीमित सीमा के भीतर अनुमेय है।

मणि नागयणस्वामी, मुख्य नियन्त्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 9—ETC (PN)/82

New Delhi, the 1st March, 1982

EXPORT TRADE CONTROL

Subject:—Export of Protein Isolate and Edible Groundnut Flour

File No. 38/6/82-EI.—Attention is invited to the Exports Control Amendment Order No.E(C)/1977/AM(234) dated the 1st March, 1982, on the above subject.

2. It has been decided to allow the export of Protein Isolate and Edible Groundnut Flour within a limited ceiling on first-come, first-served basis subject to Minimum Export Price of Rs. 25,000 and Rs. 6,000 per tonne respectively. For the purpose of licensing, the entire ceiling is placed at the disposal of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports, Bombay.

3. Accordingly the following sub-entries shall be made in the Policy Statement appearing at page 15 of Export Policy Book, 1981-82 as indicated below:—

S.No. as in part 'B' of Schedule I	Description of the item	Licensing Policy
40 (iii)	Protein Isolate	Export allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis subject to MEP of Rs. 25,000 per tonne.
40 (iv)	Edible Groundnut Flour	Export allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis subject to MEP of Rs. 6,000 per tonne.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports

